



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2006/माघ 17, 1927

No. 45]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2006/MAGHA 17, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 51(स).—केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खंड (ड) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित करती है, अर्थात् :-

“ फिनाक्साडन

2,2-डाईमिथाइल-प्रोपेनॉड एसिड 8-(2,6-डाइथाइल 4-मिथाइल फिनाइल)-9-ऑक्सो-1,2,4,5-टैट्राहाइड्रो-9एच-पायराजोलो (1-2-डी)(1,4,5)ऑक्साडाइजेपाइन-7वाइलेस्टर (आरएस)-1-मिथाइल-2-नाइट्रो-3-(टैट्राहाइड्रो-3-फर्लमिथाइल)गॉनीडाइन

डाइनोटीफोरन

एन¹-(1, 1-डाइमिथाइल-2(मिथाइल सलफोनी)इथाइल)-3-आइओडो-एन-(4-(1,2,2,2-टैट्राफ्लोरो-1-ट्राइफ्लोरोमिथाइल)इथाइल-0-टोली)थालामाइड

फ्लूबैनडामाइड

गलाइकोसाइड्स जिसमें ट्रिपटोलाइड ट्रिपडायोलाइड और ट्रिप्टेरोलाइड है

ट्रिप्टेशीसियम ऑफ विलफर्डि
हुक जी टी डब्लू -प्लांट
एक्सटैक्ट

लेपीमैक्टिन (ई-237)

(10ई, 14 ई, 16ई, 22जैड)-(आई आर, 4एस, 5एस, 6आर, 6आर, 6आर, 8आर, 12 आर, 13 एस, 20आर, 21आर, 24एस),-21,24-डाइहाइड्रोक्सी-5, 6, 11, 13, 22-पेंटामिथाइल-12(2जैड)-2मैथोजाइमाइनो-2फिनाइलैसीटाक्सी-5,6,11,13,22-पेंटामिथाइल-3,7,19-ट्राइऑटैट्रासाइक्लो (15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}),पेंटाकोसा-10, 14,16,22-टैटरीनो-6-

	स्पाइरो-2-टैट्राहाइड्रो-पायरैन-2-वन (ई-241) और (10ई, 14ई, 16ई, 22जैड)-(आईआर, 4एस, 5एस, 6आर, 6आर, 8आर, 12आर, 13एस, 20एस, 20आर, 21आर, 24एस), -6ईथाइल-21, 24-डाइहाइड्राक्सी-12-(2जैड)-2मिथोजाइमाइनो-2-फिनाइलैक्टाक्सी-5, 11, 13, 22-टैट्रा मिथाइल-3, 7, 19 ट्राइक्साटैट्रा साइक्लो (15.6.111.....11.0) पैंटाकोस-10, 14, 16, 22-टैटरिनो-6- स्पाइरो-2-टैट्राहाइड्रो-पायरैन-2-वन (ई-909) 20से > 80 रेशो में मिक्सचर (+)-5-एमीनो-1-(2, 6-डाइक्लोरो-एल्फा, एल्फा, एल्फा, एल्फा, ट्राइफलोरो-पी-टोली)-4-इथाइल-सलफानाइल पायराजोल-3-कार्बोनाइड्राइल (आरएस)-2-(2, 4-डाइक्लोरोफिनायल)-3-(1एच, 1, 2-4-ट्राइजोल-1-वाइएल) प्रोपाइल 1, 1, 2, 2-टैट्राफलोरोइथाइल इथर
इथीपरोल	
माइकोथीसिम वेरुकेरिया	
टैट्राकोनाजोल	
हाइड्रामिथाइलनोन	5, 5-डाइमिथाइल-परहाइड्रो पाइरिमिडिन-2-वन-4-ट्राइफलोरोमिथाइली = ए-(4-ट्राइफलोरोमिथाइली स्टाइराइ) सिनामाइलीडैरीहाइड्राजोन
बिटरबारकोमाइसिन	(एपोसिनम वेनेटम ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट) 1ए, 2ए, डाइसटाक्सी-8उ, 15डिसोबुटिल एकीलाक्सी-9ए - बैंजीलाक्सी-4ए, 6ए डाइहाइड्राक्सी-ए-डाइहाइड्रोलिगनालोफुरन मिथाइल-एन(फिनाइलेक्टिल)-एन-(2, 6-जाइल-डी-एलानिनेट)
बेनालैक्सिल-एम	
सल्फुरिल फलूराइड	
थाइफैसुमफुरन-मिथाइल	
निकोसलफुरन	3-(4-मैथाक्सी-मिथाइल-1, 3, 5-ट्राइजिन-2-वाइएल कारबामाइलसुल्फामाय) = थियोफन-2-कार्बोजाइलिक एसिड 2-(4, 6, - डाइमिथाक्सी पाइरिमिडिन-2-वाइएल कार्बोमाइल सलफामाउ)-एन, एन-डाइमिथाइल = निकोटिनामाइड (4, 6, -डाइमिथाक्सी पाइरिमिडिन-2-वाइएल)-3-(3-डाइमिथाइलकार्बोमाइल-2-पाइरिडाइल = सल्फोनाइल) यूरिया (2आर, 6एस, 12एस)-1, 2, 6, 6ए, 12, 12ए-हैक्साहाइड्रो-2-आइसोप्रोपिनिल-8, 9-डाइमिथाक्सीक्रोमिमोनो (3, 4-बी) फ्यूरो(2, 3-एच) क्रोमैन-6वन
रोटिनोन	2, 4 - डाइफलोरो- 2- (एए, ए, ए-ट्राइफलोरो-एम-टोलीलाक्सी) निकोटिनानिलाइड
डाइफलाईयूफेनीकन	
फोटोहाबदस ल्यूमाइनसीन्स	
अबुरुस्टी स्ट्रेन के-आई	
सराटीय मरसेन्स जीपीएस 5	
(बैम्टीरिया)	

स्कैमोकिन

प्लांट ' अन्नोना स्कवामोसा लिन्न' ऑफ सीड
एक्स्ट्रैक्ट (कस्टर्ड एप्पल)"

[फा. सं. 19-4/2003-पी पी-1]

आशीष बाहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46)की अनुसूची में संशोधन करने के लिए पूर्व में निम्नलिखित अधिसूचनाएं जा की गई थीं और निम्नलिखित संख्यांक द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी

1. सा.का.नि. 9 (अ)तारीख 9.1.1975
2. सा.का.नि. 823 (अ)तारीख 28.9.1976
3. सा.का.नि. 200 (अ)तारीख 29.3.1978
4. सा.का.नि. 574 (अ)तारीख 6.10.1979
5. सा.का.नि. 32 (अ)तारीख 12.2.1980
6. सा.का.नि. 501 (अ)तारीख 17.7.1982
7. सा.का.नि. 500 (अ)तारीख 18.6.1985
8. सा.का.नि.839 (अ)तारीख 14.11.1985
9. सा.का.नि. 31 (अ) तारीख 15.1.1987
10. सा.का.नि. 511 (अ) तारीख 22.5.1987
11. सा.का.नि. 577 (अ) तारीख 26.8.1993
12. सा.का.नि. 730 (अ) तारीख 30.10.1995
13. सा.का.नि. 10 (अ) तारीख 3.1.1996
14. सा.का.नि. 538 (अ) तारीख 21.11.1996
15. सा.का.नि. 621 (अ) तारीख 27.10.1997
16. सा.का.नि. 224 (अ) तारीख 26.3.1999
17. सा.का.नि. 672 (अ) तारीख 28.9.1999
18. सा.का.नि. 868 (अ) तारीख 15.11.2000
19. सा.का.नि. 69 (अ) तारीख 5.2.2001
20. सा.का.नि. 181 (अ)तारीख 13.3.2001
21. सा.का.नि. 291 (अ)तारीख 19.4.2002
22. सा.का.नि. 772 (अ)तारीख 18.11.2002
23. सा.का.नि. 523 (अ)तारीख 3.7.2003
24. सा.का.नि. 378 (अ)तारीख 24.6.2004
25. सा.का.नि. 744 (अ)तारीख 16.11.2004
26. सा.का.नि. 198(अ)तारीख 31.3.2005 और
27. सा.का.नि. 651 (अ)तारीख 31.10.2005

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2006

G.S.R. 51(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby includes the following substances in the Schedule to the said Act, namely :—

"Pinoxaden	2, 2-dimethyl-propanoid acid 8-(2, 6-diethyl 4-methyl phenyl)-9-oxo-1, 2, 4, 5-tetrahydro-9H-Pyrazolo [1, 2-d] [1, 4, 5] oxadiazepine-7-yl ester
Dinotefuran	(RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl) guanidine
Flubendiamide	N ¹ -[1, 1-dimethyl-2(methyl sulfonyl) ethyl]-3-iodo-N-{4-[1, 2, 2, 2-tetrafluoro-1-trifluoromethyl)ethyl]-0-tolyl}phthalamide
Triptericium of wilferdii Hook GTW - Plant extract	Glycosides having Triptolide, Triptiolide and Tripterolide
Lepimectin (E-237)	Mixture of (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6R, 6'R, 8R, 12R, 13S, 20R, 21R, 24S), -21, 24-dihydroxy-5', 6' , 11, 13, 22-pentamethyl-12-[(2Z)-2methoxyimino-2-phenylacetoxy]-5', 6', 11, 13, 22-pentamethyl-3, 7, 19-trioxatetracyclo [15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}] pentacosa-10, 14, 16, 22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydro-pyran-2-one (E-241) and (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6R, 6'R, 8R, 12R, 13S, 20R, 21R, 24S), -6'-ethyl-21, 24-dihydroxy-12-[(2Z)-2 methoxyimino-2-phenylacetoxy]-5', 11, 13, 22-tetramethyl-3, 7, 19-trioxatetracyclo [15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}] pentacosa-10, 14, 16, 22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydro-pyran-2-one (E-909) in the ratio of ≤20 to ≥80
Ethiprole	(+)-5-amino-1-(2, 6-dichloro-alpha, alpha, alpha, trifluoro-p-tolyl)-4-ethyl-sulfinyl pyrazole-3-carbonitrile
Mycothecium Verrucaria	—
Tetraconazole	(RS)-2-(2, 4-dichlorophenyl)-3-(1H, 1, 2, 4-triazole-1-yl) propyl 1, 1, 2, 2-tetrafluoroethyl ether

Hydramethylnon	5, 5-dimethyl-perhydro pyrimidin-2-one-4-trifluoromethyl = a-(4-trifluoromethyl styryl) cinnamyliderehydrazone
Bitterbarkomycin	(Plant extract of Apocynum venetum) 1a, 2a, diacetoxyl-8A, 15 dissobutyl acyloxyl-9a-benzyloxy-4A; 6A dihydroxy-A-dihydrolignaloefuran
Benalaxyl-M	Methyl-N(Phenylacetyl)-N-(2, 6-xylyl-D-alaninate
Sulfuryl Fluoride	--
Thifensulfuron-methyl	3-(4-methoxy-6-methyl-1, 3, 5-triazin-2-yl carbamoylsulfamoyl) = thiophen-2-carboxylic acid
Nicosulfuron	2-(4, 6, -dimethoxy pyrimidin-2-yl carbamoyl sulfamoyl)-N, N-dimethyl = nicotinamide-(4, 6, -dimethoxy pyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridyl = sulfonyl) urea
Rotenone	(2R, 6as, 12as)-1, 2, 6, 6a, 12, 12a-hexahydro-2-isopropenyl-8, 9-dimethoxychromeno [3, 4-b] furo [2, 3-h] chromen-6-one
Diflyufenican	2', 4'-difluoro-2-(a, a, a-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinamide
Photobacterium luminescens akhurstii Strain K-1	--
Serratia marcescens GPS 5 (Bacteria)	--
Squamocin	Seed extract of Plant 'Annona squamosa Linn' (Custard apple)"

[F.No.19-4/2003-PP-1]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

326 GI/06-2

Note :- The following notifications were issued earlier to amend the SCHEDULE to the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number :-

1. G.S.R. 9(E), dated 9.1.1975,
2. G.S.R. 823(E), dated 28.9.1976,
3. G.S.R. 200(E), dated 29.3.1978,
4. G.S.R. 574(E), dated 6.10.1979,
5. G.S.R. 32(E), dated 12.2.1980,
6. G.S.R. 501(E), dated 17.7.1982,
7. G.S.R. 500(E), dated 18.6.1985,
8. G.S.R. 839(E), dated 14.11.1985,
9. G.S.R. 31(E), dated 15.1.1987,
10. G.S.R. 511(E), dated 22.5.1987,
11. G.S.R. 577(E), dated 26.8.1993,
12. G.S.R. 730(E), dated 30.10.1995,
13. G.S.R. 10(E), dated 3.1.1996,
14. G.S.R. 538(E), dated 21.11.1996,
15. G.S.R. 621(E), dated 27.10.1997,
16. G.S.R. 224(E), dated 26.3.1999,
17. G.S.R. 672(E), dated 26.9.1999,
18. G.S.R. 868(E), dated 15.11.2000,
19. G.S.R. 69(E), dated 5.2.2001,
20. G.S.R. 181(E), dated 13.3.2001,
21. G.S.R. 291(E), dated 19.4.2002,
22. G.S.R. 772(E), dated 18.11.2002,
23. G.S.R. 523(E), dated 3.7.2003,
24. G.S.R. 378(E), dated 24.6.2004,
25. G.S.R. 744(E), dated 16.11.2004,
26. G.S.R. 198(E), dated 31.3.2005, and
27. G.S.R. 651(E), dated 31.10.2005.